

## प्रेस नोट

### थाना पचोखरा व एसटीएस टीम की संयुक्त कार्यवाही ।

### लगभग एक करोड़ (1,00,00000) रू0 कीमत की हेरोइन व एक किलोग्राम गाँजा सहित दो मादक तस्कर गिरफ्तार ।

- नशाखोरी के खिलाफ एक बार फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद की बड़ी कार्यवाही ।
- अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत करीब 01 करोड़ (1,00,00000) रूपये ।
- नशाखोरी का जहर घोलकर कर युवाओं / अनगिनत परिवारों को कर रहे हैं बर्बाद ।

विगत समय से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को जनपद में बड़े पैमाने पर नशा खोरी व ड्रग की सप्लाई की गोपनीय सूचनाये प्राप्त हो रही थी, उक्त सूचनाओं पर तत्काल संज्ञान लेते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक, नगर के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी टूण्डला के नेत्रत्व में एसएसटीएस टीम व थाना पचोखरा पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर नशे की गोपनीय सूचनाओं के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था ।

उक्त के क्रम में दिनांक 31-05-2021 की रात्रि में एसटीएस टीम व थाना पचोखरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन के दौरान 02 मादक तस्करों से एक किलोग्राम गाँजा व आधा किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 01 करोड़ रूपये है । गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने अपना नाम 1-लायक सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी हिमायुपुर नाले की पुलिया किराए का मकान महावीर सिंह डॉक्टर वीके वाली गली थाना दक्षिण मूल पता नगला दया रामनगर थाना लाइनपार फिरोजाबाद, 2- शिवकुमार पुत्र रामचरन निवासी हिमायुपुर हंश वाहिनी इण्टर कॉलेज के पीछे थाना दक्षिण फिरोजाबाद बताया । दोनों अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम दोनों द्वारा मादक पदार्थ गौरीशंकर पुत्र नामालुम निवासी उदयपुर कला थाना खेड़ा राढौर जनपद आगरा से लेकर सप्लाई करते हैं । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना पचोखरा पर मु0अ0सं0 90/2021 धारा 8/20/21/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है । वाँछित अभियुक्त गौरीशंकर की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है ।

#### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1-लायक सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी हिमायुपुर नाले की पुलिया किराए का मकान महावीर सिंह डॉक्टर वीके वाली गली थाना दक्षिण मूल पता नगला दया रामनगर थाना लाइनपार फिरोजाबाद ।
- 2- शिवकुमार पुत्र रामचरन निवासी हिमायुपुर हंश वाहिनी इण्टर कॉलेज के पीछे थाना दक्षिण फिरोजाबाद ।

#### वाँछित अपराधी:-

- 1-गौरीशंकर पुत्र नामालुम निवासी उदयपुर कला थाना खेड़ा राढौर जनपद आगरा ।

#### बरामदगी का विवरण:-

- 1-हेरोइन - 500 ग्राम (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग-एक करोड़ रू0)
- 2-गाँजा -01 कि0ग्राम

#### पंजीकृत अभियोग:-

- 1- मु0अ0सं0 90/2021 धारा 8/20/21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद ।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-थानाध्यक्ष श्री हरवेन्द्र मिश्रा थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद ।
- 2-उ0नि0 श्री तेजवीर सिंह प्रभारी एसटीएस जनपद फिरोजाबाद ।
- 3-उ0नि0 श्री अजय कुमार चक थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद ।
- 4-का0 1004 हेमन्त कुमार थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद ।
- 5-का0 787 नीतेन्द्र कुमार थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद ।

**एसटीएस टीम:-**

- 1-है0का0 291 दिनेश गौतम, 2-का0 836 लवप्रकाश,
- 3-का0 1384 प्रवीन कुमार, 4-मु0आ0 चालक रविकान्त ।